



वयं राष्ट्रे जागृयाम् पुरोहिताः

Govt. Girls' P.G. College, Ujjain (M.P.)

(Established in 1958)

A Centre for Excellence, "A" Graded by NAAC in Two Cycles

Affiliated to Vikram University, Ujjain



Internal Quality Assurance Cell

Innovation Ecosystem

**Innovations and Initiatives
for
Creation and Transfer of Knowledge**

Innovation Ecosystem

S. No.	Name of Subjects	Innovations and Initiatives for Creation and Transfer of Knowledge
1.	Economics	Workshops on Union Budget with Invited Experts from different Sectors; Publication of ARTHAYAM, Field/Industrial Survey
2.	Chemistry	Flex/Poster preparation Adulteration Check Workshops and Campaign; Sample Testing; Wall Magazine (WHO AM I) Instrumentation Training Rangoli Making on Periodic Table
3.	Zoology	College Campus Insect and Faunal Diversity Audits;
4.	Botany	Identification of plant; Floral Biodiversity survey in college premises; Biogas preparation; Nomenclature Tags covering major part of floral biodiversity in college premises Green Audit of floral biodiversity of college
5.	Physics	Virtual Lab Experiments, Self-made Retrograde Vernier; Innovative Experiments in Physics; Awareness Workshops on Planetary Motions and Eclipse, Innovation Programmes
	Pharmaceutical Chemistry	Herbal Products Preparation Development of Pharmaceutical Garden Adulteration Check Workshops, Sample Testing etc.;; Nomenclature of Plants in Pharma Garden through QR Code; Herbal Products preparation Drama on Awareness against Superstitions through demonstration of science of magic

		Wall Magazine, Trigger Wall
6.	Biotechnology	Flex/Poster preparation; Ph Level testing of Water and soil, Pathological Testing
7.	Microbiology	Flex preparation; Identification of Biocomposting and organic manure preparation methods; Jeevamrut preparation; Biofertilizer preparation through plant waste
8.	Computer Science	ICT Trainings under MoU
9.	Statistics	Understanding Analysis, Tabulation and Graphical Presentation of Feedback Data
10.	Mathematics	Departmental YouTube Channel Feel Maths, Maths Week celebration including Rangoli making and Static and Dynamic Model Building on Mathematics Topics;
11.	Hindi	Hand- written student magazine "NAVANKUR"; Hindi Diwas and other celebrations; Drama, Story and Poetry Reading on Jayanti of Litterateurs Bhasha Sudhaar Karyashala Literary competitions under Collaboration with Northern Coalfields Ltd., Singrauli for celebration of Vigilance Awareness Week
12.	Sanskrit	Celebration of Sanskrit Saptah (Week) Drama in Sanskrit, Sanskrit inputs in Basantotsav Indian Knowledge System Exercises
13.		Spring Poetry Festival Fishbowl Activity Literary Club

	English	Pro and Con Grid Literary Competitions Communication Skills Workshops
14.	History	Exhibition of Ancient Coins/Mudra and Weapons of Freedom Struggle Learning through Departmental Art Gallery Educational Tour to Vikram Kirti Mandir Museum, Ujjain; Triveni Sangrahalaya, Ujjain; State Museum Bhopal; Ashwini Research Centre, Mahidpur; Bhimbetka Rock shelters etc.
15.	Sociology	Learning through Mind Maps of Sociological Events EContent on YouTube Channel
16.	Psychology	Individual and Group Counseling IQ Testing; Quiz, Identifying Peer Personality Traits, Counseling Studying IQ Levels of special children during educational visits
17.	Music (Vocal, Instrumental) and Dance	Thematic Singing, playing instruments, Dancing in Basantotsav and Anand Utsav Alumni guided Workshops Meditation with Music
18.	Drawing and Painting	Alumni guided Workshops Thematic Spot Painting in Basantotsav and Anand Utsav Best out of Waste Discovering patterns, Identification of Painting Styles, Painting on bare walls of college Preparation and Exhibition cum Sale of Art and Craft items, Karve, Paintings, Sanja, Mandana,

		Mehandi Making
19.	Home Science	<p>On Site Training in Bhairavgarh Batik and Block Printing Industry,</p> <p>2. Educational Tour to GoMP National Handicraft Fair, Kalidas Academy, Ujjain</p> <p>Tie and Dye; Soup Making etc. Workshops</p> <p>Making nutritious dishes with local economic grains, E-Workshops</p> <p>Best out of Waste</p>
20.	Commerce	Workshops on Income Tax, GST with Experts
21.	Library	Virtual Library, Google Site
22.	IQAC	<p>Human Library</p> <p>Business Incubation Centre SYNERGY</p> <p>FOCAL SCHEMES</p> <p>Synergistic Structure with SDGs</p>

Sample Evidences of Innovative Initiatives

Workshops on Union Budget by Economics Department with Invited Experts from different sectors



Budget Symposium





'Relaxation given to MSME sector inadequate'

Symposium on Budget organised at GGPGC

FP NEWS SERVICE
Ujjain

"Relaxation given to MSME sector is not adequate in view of the desired growth rate. It is not judicious to fix new targets without assessing the targets fixed for last year," industrialist Ramesh Sabu opined as panel expert in a symposium on Budget 2020-21 organised by economics department, IQAC of Government Girls Post-Graduate College (GGPGC) in collaboration with Tapan Chourey Foundation.

Second panel expert and MITM director Dr Rishi Dubey speaking on primary sector emphasised



Dr Rishi Dubey addressing the symposium organised on Budget-2020 at GGPGC (FP PHOTO)

that the growth rate of agro sector must be carried to 12 per cent from present 2.8 per cent. Empowered women self help groups may contribute to a larger extent in rural development. Kisan rail and kisan Udan are laudable initiatives.

Third panel expert and SBI regional manager Sanjay Kumar Sharma said,

banking sector is synonym of development and the word credit derives its origin from credibility. This has been incorporated in budget by increasing bank deposit insurance from Rs 1 lakh to 5 lakh. Banks have been freed from government aid which has paved the way for self-dependency of banks.

Fourth panel expert

chartered accountant PK Dass told that the new option of income tax is beneficial for lower income groups, new comers and pensioners. In the current scenario of low consumption the government had no extra fiscal space for imposing additional taxes so it introduced a twin slab structure.

In the presidential ad-

dress principal Dr Ulka Yadav told that budget is like a national festival and every person awaits it. Through such fruitful symposium the intricate technicalities of budget become lucid and comprehensive for common people. HoD of economics department Dr Nancy Chouhan gave thematic introduction of the symposium and welcome address.

Programme was inaugurated by lighting a lamp before Goddess Saraswati's idol followed by Saraswati Vandana by Tanya Gandhi, Damyanti Bais and Bhawana. Panel discussion was conducted by Ashwini Tomar, Vishkha Gaud, Jahabia and Bharti Chandel. Tisha Choubey and Deepali Bhatnagar conducted the programme and Dr Abha Dixit proposed a vote of thanks.

Union Budget 2021-22: Govt shifts outlook from entitlement to empowerment mode

FP NEWS SERVICE
Ujjain

The helicopter money which was transferred to the poor and the needy as a relief measure during the pandemic lockdown through DBT displayed a peculiar trend of increased marginal propensity to save rather than marginal propensity to consume due to an apprehension of another future crisis and uncertainty. This led the government to take up target oriented transfers and reduce general outlays on subsidies and welfare schemes like MNREGA. This shift in focus from entitlement

to empowerment has been complimented with a simultaneous focus on skill development including that in New Education Policy-2020.

These were the words of renowned economist from Udaipur Prof. Ganesh Kawadia, who was speaking as a speaker in the national webinar on Decoding Union Budget 2021-22.

It was organised by department of economics, Government Girls' Post-graduate College's Internal Quality Assurance Cell in collaboration with School of Studies in Economics, Vikram University and Tapan Chourey Foundation. He remarked that the



Ganesh Kawadia (L), Kuldeep Gupta (M) and Sanjay Kumar Sharma (R) addressing the national webinar. FP PHOTOS

proposed borrowings in the budget are not worrisome against the backdrop of the positive economic parameters of risk bearing capacity of the government. On privatisation drive he opined that it is actually more of dismantling of socialistic economic order which dissuades efficiency and competition.

Prof. Kawadia stated that the Union Budget 2021-22 is a heavily loaded with supply side push but demand too has an important role to play in the revival of the economy.

The second speaker, chartered accountant Kuldeep Gupta, secretary of ICAI, Jaipur explained all the GST provisions and Income Tax Amend-

ments mentioned in the Union Budget 2021-22 in a lucid manner.

The third speaker Sanjay Kumar Sharma, AGM, State Bank of India, Ujjain said that banking is the backbone of an economy and the trust of public in this sector is essential for the nation, so the rise in the deposit insurance cover is a big confidence booster for the public and survival of banks.

He said earlier the banks were originally private which were then nationalised and now again are being privatised on the grounds of low efficiency quotient of PSBs. The proposed Asset Reconstruction Company on the concept of a Bad Bank

will lead to balance sheet cleaning, unlocking of money deposits for lending and had loan management tasks will be diverted to productive managerial functions.

Thematic introduction was given by the webinar convener and IQAC coordinator Dr. Neeta Tapan. Welcome address was given by the co-convener Dr. SK. Mishra, head School of Studies in Economics, Vikram University. Introduction of guests was given by Dr. Nikhil Joshi and Dr. Sangram Bhusan. Programme was conducted by Dr. Rashmi Bhargava and vote of thanks was given by Tisha Choubey. Technical support was given by Vivek Dubey.

NATIONAL WEBINAR

Budget-2022-23: A balancing act of future priorities & present constraints: Experts

FP NEWS SERVICE
Ujjain

Budget-2022-23 is a futuristic budget prepared under present constraints. The pandemic shadow continues to loom large on revenue side and performance pressure on supply side is inevitable. Amidst all expectations and disappointments, the budget did the balancing act trying to avoid borrowing option and aiming at a reduction in fiscal deficit. The budget in the coming years might have a freehand once full normalcy is restored.

These were the words of experts speaking in national webinar on Union Budget 22-23 organised by economics department and IQAC of Government

Girls Post-Graduate College in collaboration with Tapan Chourey Foundation. The first expert, International Youth Economic Association president Dr. Devendra Vishwakarma said that agricultural sector performed resiliently and rural economy suffered some setbacks during the Covid period. However, allocation for both the areas didn't show a significant rise in the budget. MNREGA proved to be a boon for rural sector in many ways, especially for migrant labourers but the scheme was facing continuous decline in allocation.

Dr. Vishwakarma said that more agro-based industries were expected especially in the tribal areas. Amrit Kaal blueprint should have addressed



DR DEVENDRA VISHWAKARMA

structural challenges in rural economy like forming rural markets in form of clusters covering five panchayats. Ken-Betwa project would give pace to agriculture and check out-migration. However, the proposal of Organic Farming in



DR OM PRAKASH SHUKLA

the budget gets lost in the mist of high-cost challenges, he added. Second speaker, National Defense Academy, Pune, principal Dr. Om Prakash Shukla said that unemployment was a major concern for Indian economy

This budget focuses on supply side through pump priming in infrastructure development. The old belief that road was the major driver of growth was underlined in this budget signifying development of infra net for connectivity and employment under PM Gati-Shakti.

E-portal for labour might also improve employment scenario. The allocations for education and skill development under NEP will prepare human capital for employment market.

Dr. Shukla remarked that inclusive approach of roadmap for 25 years to reach centenary of independent India aims at improving ease of living and doing through digitizing, basic amenities provision and generating sunrise opportunities,

incentivizing MSMEs and gender budgeting. Long term measures give a hope that the vulnerable sections would have better coping strategies with time.

In her presidential address Dr. Anita Manchanda said that this budget promises digitization in education so it can be hoped that no generation of rural-based and lower-income class students gets deprived of access ever in future. Dr. Nancy Chauhan, head of economics department gave welcome address and Dr. Neeta Tapan, IQAC coordinator gave thematic introduction. Dr. Abha Dixit, professor of economics, conducted the programme. Technical support was given by Vivek Dubey.



Govt. Girls' P.G. College, Ujjain

A Centre for Excellence, "A" Graded from NAAC (2 Cycles)

Internal Quality Assurance Cell (IQAC) and

Department of Economics

organize

Short Term National Online Certificate Course

on

"Fundamentals of Indian Economy"

9th August – 16th August 2020

Course Convener

Dr. Nancy Chauhan

Professor and Head

Department of Economics

Organizing Committee Members

Dr. Nikhil Joshi, Professor Economics Department

Dr. Abha Dixit, Professor Economics Department

Dr. Neeta Tapan
IQAC Coordinator

Dr. Ulka Yadav
Principal

Herbal Colours by Chemistry and Pharmaceutical Chemistry



Rangoli of Periodic Table by Chemistry Department



Drama on Social Awareness against Superstitions by Chemistry and Pharma Department depicting Science of Magic



FP NEWS SERVICE / Ujjain

Post-graduate mathematics department of Government Girls' Post-Graduate College organised a two-day national e-workshop on 'Different Facets of Mathematics' under the aegis of Internal Quality Assurance Cell.

On the day-1, Dr. Om Prakash, associate professor, department of mathematics IIT, Patna, Bihar delivered a demonstration lecture on 'Some applications of Abstract Algebra.' Second lecture was delivered by Dr. Dipti Gupta of MIT, Moradabad on 'Ramanujan Magic Number.'

On day-2, Dr. Jyoti Atul Dhanke from Bharati Vidyapeeth's College of Engineering Lavale, Pune lectured on 'Intellectual Property Rights: Innovative

e-workshop on maths held

Approaches in Real Life.' The fourth lecture of the workshop was given by Priyanka Sharma, doctoral scholar at IIT, Patna on 'How to prepare for higher studies and research in mathematics.' In his presidential address principal Dr. H.L. Anjwal said use of

Mathematics ranges from daily use calculations to technical use in diverse fields and this workshop covered important aspects of it. IQAC Coordinator Dr. Neeta Tapan gave the college introduction. Senior professor Dr. Anita Manchandia gave the welcome address. Convener and head of maths department Dr. Nirmala Gupta gave the thematic introduction and the vote of thanks. Guests were introduced by Dr. Dheeraj Aheere, Dr. Ankit Agrawal, Dr. Rupasya Thakur and Dr. Pooja Vinodiya.

Short play on science behind myths staged

FP NEWS SERVICE
Ujjain

IQAC and department of chemistry and pharmaceutical chemistry of Government Girls' Post-Graduate College staged a short play on 'Social Awareness on Science behind Myths' in college campus.

The students of pharmaceutical chemistry performed chemical reactions to expose the fakery of the quacks and the superstitions which they propagate.

They explained the scientific reasons and depicted how innocent people get fooled and deceived due to their blind faith.

Principal Dr. H.L. Anjwal said it is a very good initiative by college students for social awareness and asked the students, especially those hailing from rural areas to carry forward this scientific knowledge to the people.

Dr. GD Agrawal, head of pharmaceutical chemistry, said that this is among the best practices followed by the college for inculcating scientific temper among the students and society.

The play was directed by Dharmesh Rathore. Dr. Rashmi Bhargava, Dr. Samina Qureshi, Mayuri Sonar, Aarfeen Ali, Surbhi Sharma, College staff and students were present at the show.

GGPGC students stage a short play on myths. FP PHOTO

PANCHANG 31.12.2021 (UTTARAVAN)

Like (144) Share (201)

Uttarayan Panch Mishra 12 Friday 1:00:00 AM

Month Anuradha 10 DE PA Mon Jyestha

Time Sun 5:20 P.M. Sun Good

Star Tau 10 RA Ashv. Rev. Varj

Month Uttarak

10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

FREE PRESS CLASSIFIED

RUNNING CLASSIFIED

DISPLAY CLASSIFIED 12 DAY 9999/-

1000 SPECIMEN 1000000000

750/- NO. CMC ODR # CLASSIFIED

FREE PRESS CALL- 9425082195

Wall Magazine "Who Am I" by Chemistry Department



Govt. Girls' P. G. College, Ujjain

A Centre for Excellence - A Graded by NAAC (2 Cycles)

Internal Quality Assurance Cell

Department of Chemistry & Pharmaceutical Chemistry

Organize


Short Term National Online Certificate Course

On

"Health Awareness"



1st to 8th September, 2020



[Supported by MPHEQIP and World Bank(IDP)]

Course is designed in a manner that it develops awareness in the society for common human diseases in terms of causes, symptoms and home remedies.



Patron
Dr. Ulka Yadav



IQAC Coordinator
Dr. Neeta Tapan

Convener
Dr. Anita Manchandia

Co Conveners

Dr. Rashmi Bhargav ; Dr. G. D. Agrawal ; Dr. Samina Qureshi

Organising Committee

Dr. Neha Tripathi ; Dharmesh Rathore ; Kajal Pandey ; Mayuri Soner

"Physical Fitness is the first requisite of happiness."

Snake Species Awareness by Zoology department in Reptile Park under MoU



**Visit to Vermicomposting Centre, Agriculture Dept. Ujjain
by Zoology and Biotechnology Department**



**Visit to Organic Farming and Vegetative Propagation
By Botany and Microbiology Department**



**Hydroponic Plants and Wild Gourd developed by
Class IV Employees of Botany Department**



Research Innovation by Physics Professor

City's professor demonstrates retrograde Vernier

FP NEWS SERVICE
Ujjain

At the Indian Association of Physics Teachers' 35 annual convention organised recently at Shri Vaishnav Vidyapith Vishwavidyalaya Indore, Dr Vinod Kumar Gupta of Government Girls PG College demonstrated models of Direct Vernier and Retrograde Vernier under session on innovative teaching.

His model was appreciated by Professor VA Singh president, Dr KN Joshipura general secretary IAPT, Padmashri professor HC Verma, Dr PK Dubey EC member, Dr BD Shrivastava president RC-9, Dr Utam Sharma Secretary RC-9, Dr SK Joshi coordinator NCEWP-21 and other participants.



Left to right: Padma Dr HC Verma and IAPT RC-9 executive committee member Dr PK Dubey and Dr Vinod Kumar Gupta

Dr Gupta was awarded second prize under Nation-

al Essay Competition in Physics NCEWP-2021. Prin-

cipal Dr HL Anijwal and staff congratulated him.

Collaborative Workshops on Solar Eclipse, Planetary Motions, Innovative Experiments, Innovation Programme by Physics Department









✓ जीडीसी में आयोजित हुआ जादू विज्ञान कार्यक्रम

उज्जैन। विद्यार्थी चमत्कारों से भ्रमित न हों, वे अपनी दिमाग से काम लें क्योंकि चमत्कार के पीछे विज्ञान छुपा होता है। यह बात नवाचारी कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय के भौतिकी व कम्प्यूटर विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम विज्ञान का जादू, जादू का विज्ञान के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि जनभागीदारी-अध्यक्ष शील लश्करी ने कही। विशिष्ट अतिथि प्रो. एन.के. गर्ग ने कहा कि घटनाओं को देखने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। अध्यक्षीय उद्बोधन में जीडीसी की प्राचार्य उल्का यादव ने कहा कि यह आयोजन विशिष्ट है। स्वागत भाषण डॉ. विनोद कुमार गुप्ता ने दिया। विज्ञान का जादू कार्यक्रम चिल्ड्रन साइंस सेंटर रतलाम के दल द्वारा दिया गया। उन्होंने खाली डिब्बे से हारफूल निकालना, तस्वीर से भभूत निकालना, भूत उतारना जैसे जादू दिखाए तथा उनके वैज्ञानिक कारणों को भी समझाया।

तस्वीर से भभूत निकाली, बोले- जादू नहीं, मर्करी क्लोराइड है

जीडीसी में इनोवेशन कार्यक्रम विज्ञान का जादू, जादू का विज्ञान

भारत संवाददाता | 33 जून

कोई भी जादू बगैर विज्ञान के नहीं होता। हर चमत्कार या जादू के पीछे विज्ञान के राज छिपे होते हैं। सोमवार को एक्सपर्ट ने कुछ ऐसे ही तरीकों का प्रेजेंटेशन करके छात्रों को जादू के पीछे छिपे विज्ञान के रहस्य को बताया।

स्थित शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय (जीडीसी) में सोमवार को नवाचारी कार्यक्रम



इनोवेशन कार्यक्रम पर संबोधित करते एक्सपर्ट एवं मंचासीन अन्य अतिथिगण।

के अंतर्गत कॉलेज के भौतिकी व कंप्यूटर विभाग द्वारा विज्ञान का जादू, जादू का विज्ञान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कॉलेज की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष शील लक्ष्मी ने शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथि

प्रो. एनके गर्ग थे। अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. उल्का यादव ने की। कार्यक्रम में चिल्ड्रेन्स साइंस सेंटर रतलाम के विशेषज्ञों के रूप में आए गजेंद्र सिंह राठी, अनिल मिश्रा और गिरीश लहवासिया उपस्थित थे। कार्यक्रम

की रूपरेखा संयोजक डॉ. विनोद कुमार गुप्ता ने प्रस्तुत की। इसके बाद एक्सपर्ट ने खाली डिब्बे से हार-फूल निकालना, तस्वीर से भभूत निकालना, भूत उतारना, नारियल से आग निकालना, खाली गिलास से पानी निकालना सहित अन्य जादू के पीछे छिपे विज्ञान के रहस्य को वैज्ञानिक कारणों के साथ समझाया। संचालन डॉ. वीके गुप्ता ने किया। आभार डॉ. रलेश शर्मा ने माना।

नींबू लाल होने और आग लगने के कारण बताए

कार्यक्रम में एक छात्रा को भूत उतारने पर नींबू लाल हो गया।

नारियल का पानी छिड़कते ही उसमें आग लग गई। हवन कुंड में घी डालते ही अग्नि प्रज्वलित हो उठी और तस्वीर से भभूत निकलने लगी। एक्सपर्ट गजेंद्र सिंह राठी ने बताया कि नींबू में फेरिक क्लोराइड इंजेक्ट कर चाकू पर सोडियम थायोसाइनेट लगाने से काटने पर वह लाल हो जाता है। हवन कुंड में पोटेशियम परमेगनेट पर गिलसरीन डाल कर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इसी तरह सोडियम के टुकड़ों को नारियल की जटा में रख कर पानी डाला जाता है। तस्वीर की एल्यूमिनियम फ्रेम पर मर्करी क्लोराइड लगा कर भभूत निकाली जाती है।

QR Code in Pharmaceutical Garden



Govt. Girls' P. G. College, Ujjain

A Centre for Excellence – "A" Graded by NAAC (2 Cycles)

Department of Chemistry & Pharmaceutical Chemistry



Eco Ganesh by Biotechnology



Organic Manure "JEEVAMRIT" by Microbiology



IT Training by Computer Science Department

IT training workshop concludes at GGPGC



Workshop on information technology in progress at GGPGC FP PHOTO

FP NEWS SERVICE

Ujjain

A two-day IT training workshop was organised by computer department and IQAC with the help of Universal Informatics and sponsored by Janbhgidari Samiti at Government Girls Post-graduate College (GGPGC) on Saturday.

58 students were registered in the workshop. Fundamentals of HTML, CSS and Bootstrap were taught to the trainees by the resource persons namely Archana Uthra, Umer Nagori and Kuldeep Singh. While inaugurating the

workshop principal Dr Ulka Yadav asked the participants to learn IT techniques and consider this training sincerely.

In the feedback session, students Chanda Bhatia, Ankita Dubey, Kritika Upadhyay and Shrashti Nigam expressed that how the training provided them important aspects of HTML, Bootstrap etc. Welcome speech and outline of the programme was presented by Dr VK Gupta. Programme was conducted by Kritika Upadhyay and vote of thanks was expressed by Pratiksha Ambadekar.

RANGOLI COMPETITION ON NATIONAL MATHEMATICS DAY

Static and Dynamic Models Exhibition by Mathematics Department

Mathematics Week underway at GGPGC
National Mathematics Day event held

FP NEWS SERVICE
Ujjain

Work done by Ramanujan in short lifespan is incomparable. He gave so many theorems and important principles of mathematics. We have to spread his work up to the students. For this we must know the available e-resources.

These were the views of Dr Bhanupratap Singh, vice-chancellor of Maharishi University, Lucknow as a key speaker of Mathematics Day webinar and Mathematics Week organised by mathematics department and IQAC of Government Girl's Post-Graduate College (GGPGC) on the occasion

of 133rd birth anniversary of India's great mathematician Dr Srinivas Ramanujan.

Second speaker Dr Deepthi Gupta HOD MIT Moradabad said that Dr Ramanujan used to write notes on book margins as paper was costly. He started his career as accountant but later switched to mathematics as it was his passion. Dr Dheeraj Ahire told that Ramanujan used to say that supernatural power inspires him to work. My students are my motivation.

In her presidential address principal Dr Anita Manchandia told that because of his invention of magic numbers he was

called mathemagician. Mock Theta function invented by him is now used in the treatment of cancer. Convener and HOD mathematics Dr Nirmla Gupta presented the outline of mathematics day and week and welcomed the guests.

In the Mathematics Week essay, poster, chart and student seminar were organised. In essay competition Nikita Yadav stood first and Madhubala Ahirwar second, in poster presentation Mansi Soner stood first and Shivangi Khakre second and in seminar Somya Bhatt was first. Programme was conducted by Dr Ankit Agarwal and vote of thanks was expressed by Dr Pooja Vinodia.

गणित सप्ताह • शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक सप्ताह तक गणित से जुड़े कार्यक्रम व स्पर्धाएं
गणित के सूत्रों से बनाई रंगोली, मॉडल बनाकर जीते पुरस्कार

भास्कर संवाददाता | उज्जैन

21 दिसंबर को रंगोली स्पर्धा रखी गई। इसमें विद्यार्थियों ने गणित के संकेत व सूत्रों को दर्शाया। प्रथम स्थान पर नीलम सिंदल बीएससी प्रथम वर्ष व अंशिता वेगड़े बीएससी तृतीय वर्ष रहीं। द्वितीय स्थान पर चंचल आंजना व मुस्कान खान बीएससी तृतीय वर्ष ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।


22 दिसंबर को ऑनलाइन एक्सपर्ट लेक्चर का आयोजन किया। इसमें डॉ. ओमप्रकाश एसो. प्रोफेसर गणित विभाग आईआईटी पटना ने सम एप्लीकेशंस ऑफ एक्सप्टेक्ट अलजेब्रा पर और डॉ. प्रीति गुप्ता एमआईटी मुरादाबाद ने रामानुजन मैजिक नं. पर विचार रखे।

23 दिसंबर को डॉ. ज्योति अतुल स्थापक भारतीय विद्यापीठ कालेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने इन्वेटिव एप्रोचेस इन रियल लाइफ पर और प्रियंका शर्मा रिसर्च स्कालर आईआईटी पटना ने हायर स्टडीज इन मैथ्स एंड रिसर्च के बारे में जानकारी दी।

23 दिसंबर को मैथ्स मॉडल का ऑनलाइन आयोजन किया। इसमें नॉन वर्किंग मॉडल में श्वेता पाटीदार, अनामिका पाल, आराधना नाथमास, खुशी नागर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विनीता जाटवा, सुजाता गौड़ व नरेशी मीणा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वर्किंग मॉडल में चंचल आंजना ने प्रथम स्थान व नोशीन फातूमा, आशा चौहान, अलका गिरि और साक्षी डोड, सुहाना कुंवर व कविता कुंवर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

24 दिसंबर को गणित विभाग ने क्विज कॉम्पिटिशन व करियर काउंसिलिंग का आयोजन किया। इसमें जयांशी शर्मा, दिव्यानी मीणा व चंचल आंजना ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किए।





Ujjain, Madhya Pradesh, India
 4, near Dargah, Sethi Nagar, Ujjain, Madhya Pradesh 456010, India
 Lat 23.174958°
 Long 75.797377°
 21/12/21 01:17 PM

... are well-organized and well-planned.

RAMANUJAN'S ANNIVERSARY

GGPGC organises Mathematics Week



GGPGC students will be held in the school during Mathematics Week.

FP NEWS SERVICE
 Ujjain

Mathematics Week was organized by mathematics post graduate department and IQAC of Government Girls Post-Graduate College (GGPGC) to celebrate birth anniversary of Srinivasa Ramanujan.

Essay writing, poster making, quiz competition, group work, model making, poster presentation and group competition on beauty of numbers and paper presentation on contribution of mathematics in disease control were organized for students.

On the concluding day on Friday mathematics model competition and exhibition were organized in which all students displayed models. The judges were Dr. Anita Manchanda, Dr. Rashmi Bhargava and Dr. Vinod Kumar Gupta.

In the working model category Chandni Anjana and group secured first position for model named Day of Arya Date model designed by Shobana Patil, Anika Choudhan and Alka Giri was adjudged second model. Chaitanya was also adjudged second. Group of Anusha, Yashika, Yashika and Mayur were placed on third position.

In the non-working model category Model Train of Groupy Theory by Shweta Parida, Anurika Pal, Aradhya Nayana, Divyansha Nagar got first prize. Model Geometrical Shapes Park and House of Maths and Memorization by Vanya Arora, Sagita Goyal, Nishita, Meera, Nikita, Rubina, Gayatri, Bharti and Vandana Siroda, Megha, Jyotsna, Sanya, Harshita, Nishita, Yashika were awarded second prize. Model Geometry shapes,

Basic Trigonometry by Rishika, Harshita, Payal Parmar, Ishikata, Pooja, Shikha, Kirti, Radhika, Sakshita, Malvika got the third prize. Consolation prizes were also given.

The convener of the event and head of the maths department Dr. Nirmala Gupta said that to celebrate not only commemorates the memory of the great Mathematician but also inculcates passion among the students for mathematics.

IQAC coordinator Dr. Neeta Tripathi said that such events are a part of innovative teaching-learning pedagogy.

Principal Dr. Nil Anand said the involvement of students implies that mathematics specific methodologies should be evolved and the colleges have made special efforts to break the lockhart inertia and ensure students participation. The organizing committee comprised Dr. Divyansha, Dr. Aniket Agrawal, Dr. Tapasya Thakur, Dr. Pooja Vinodhya of maths and statistics departments.

PANORAMA 25.12.2021 (SATURDAY)

Sl. No.	Category
1	Mathematics Working Model
2	Mathematics Memorization
3	Mathematics Park
4	Mathematics House
5	Mathematics Train

Sl. No.	Category	Prize
1	Mathematics Working Model	First Prize
2	Mathematics Memorization	Second Prize
3	Mathematics Park	Third Prize
4	Mathematics House	Consolation Prize
5	Mathematics Train	Consolation Prize

कन्या महाविद्यालय में गणित सप्ताह का आयोजन



उद्घाटन। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन के गणित विभाग व आयक्यूएसी द्वारा गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की 124वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गणित सप्ताह का आयोजन किया गया।

20 दिसम्बर को निबंध लेखन प्रतियोगिता व पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। निबंध प्रतियोगिता में विनोता शर्मा बी.एससी. प्रथम वर्ष व पलक जर्वा बी.एससी. तृतीय वर्ष को प्रथम पुरस्कार और अर्शिया खान बी.एससी. प्रथम वर्ष व शिवानी प्रजापति बी.एससी. द्वितीय वर्ष ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया।

21 दिसम्बर को रंगोली स्पर्धा का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने



गणित के संकेत व सूत्रों को दर्शाया। प्रथम स्थान पर नीलम सिंदल बी.एससी. प्रथम वर्ष व अंशिता बेगड़े बी.एससी. तृतीय वर्ष रही। द्वितीय स्थान पर चंचल आंजना व मुस्कान खान बी.एससी. तृतीय वर्ष ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

22 दिसम्बर को आनलाईन एक्सपर्ट लेक्चर का आयोजन किया गया जिसमें डॉ. ओमप्रकाश असीसिएट प्रोफेसर गणित विभाग आयआयटी फटना ने सम एप्लीकेशन्स आफ एक्सट्रैक्ट एलजब्रा पर तथा डॉ. दीपि गूभा एम.आय.टी. मुरादाबाद ने रामानुजन मैजिक नं. पर रोचक व्याख्यान दिया जिसे विद्यार्थियों ने बहुत परसंद किया।

विनीता जाटवा, सुजाता गोंड व नरेशी मीणा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वकिंग माडल में चंचल आंजना ने प्रथम स्थान व नीशीन फागूभा, आशा चौहान, अलका गिरी तथा साक्षी डोड, सुहासा कुंवर व

कविता कुंवर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

गणित विभाग ने क्रिज काम्प्यूटेशन व करियर काउन्सिलिंग का आयोजन किया। इस स्पर्धा में जयांशी शर्मा, दिव्यानो मीणा व चंचल आंजना ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किए।

संपूर्ण गणित सप्ताह के कार्यक्रमों को अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. एच.एल. अनिजवाल ने की। आयक्यूएसी संयोजक डॉ. नीता तपन ने कहा कि इस तरह का आयोजन नवाचारी शिक्षण का हिस्सा है। उक्त जानकारी कार्यक्रम संयोजक डॉ. निर्मला गुप्ता विभागाध्यक्ष गणित ने प्रदान की। डॉ. धीरज अहिरे, अंकित अग्रवाल व तपस्या ताकुर ने तकनीकी सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन कादम्बिनी चौहान, अमिशा जायसवाल बी.एससी. तृतीय वर्ष ने किया। आधार बुलबुल प्रजापत ने स्वक किया। प्रचार संयोजक डॉ. विनोद कुमार गुप्ता ने जानकारी दी।

गणित विभाग व आयक्यूएसी द्वारा गणित सप्ताह का आयोजन

उद्घाटन। राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन के आय.क्यू.ए.सी. एवं गणित विभाग ने गणित सप्ताह का आयोजन किया। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जैसे वेबिनार, प्रश्नोत्तरी, रंगोली, निबंध और गणितीय मॉडल प्रतियोगिताएं। आज एक गणितीय मॉडल प्रदर्शनी का उद्घाटन प्राचार्य डॉ. एच.एल. अनिजवाल ने किया। उन्होंने बताया कि इस मॉडल मैकिंग प्रतियोगिता से गणित और रचनात्मकता दोनों में रुचि पैदा हुई है और इस आयोजन ने लाकड़ान को जड़ता को खत्म किया है।

वकिंग मॉडल कैटेगरी में चंचल आंजना एवं समूह द्वारा डे ऑफ एनी डेट नाम के मॉडल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, नोशीन फातेमा, आशा चौहान और अलका



गिरी के माडल पोलिगोन ने दूसरा, साक्षी डोड, प्रीति यादव, शोभा कुंवर, कविता कुंवर के माडल क्लिनोमोटर ने भी दूसरा स्थान हासिल किया। अमोधा, विशाखा, वर्षा और मयूरी के समूह को तीसरे स्थान पर रखा गया।

नॉन वकिंग स्टैटिक मॉडल श्रेणी में शेता


पाटीदार, अनामिका घल, आराधना नाथमा, सुशी नागर द्वारा टैन आफ प्राफ थ्योरी नामक माडल प्रथम, विनीता जाटवा, सुजाता गोंड, नरेशी मीना, निकिता फुलेरिया, गायत्री भारती द्वारा मॉडल त्रियोमेट्रियल शेप पार्क और खंदना सिसोदिवा, मेधा जायसवाल, शशिना रानादे,

नीलम शर्मा को प्रथम एंड मेन्सुरेशन का द्वितीय पुरस्कार मिला। मॉडल ज्योमेट्री शापेस, बेसिक ट्रिगोनोमरी रिमाइम, बैरागी, पायल परमार, हेमलता पवार, रिया सोनी, सुशी राठी, संजना मालवीय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। दोनों श्रेणियों में सर्व्वना पुरस्कार भी दिए गए।

आय.क्यू.ए.सी. समन्वयक डॉ. नीता तपन ने कहा कि इस तरह के आयोजन नवाचारी शिक्षण का हिस्सा है। कार्यक्रम संयोजक डॉ. निर्मला गुप्ता विभागाध्यक्ष गणित ने बताया कि डॉ. रामानुजन की स्मृति में पहली बार यह वृहत आयोजन किया गया है। माडल प्रतियोगिता के विन्यायक डॉ. अनिता मनचौंदेवा, डॉ. रश्मि भार्गव व डॉ. विनोद कुमार गुप्ता थे। प्रचार संयोजक डॉ. विनोद कुमार गुप्ता ने जानकारी दी।

Interdisciplinary Innovative Spring Celebration (Vocal & Instrumental Music, Dance, Drawing, Hindi and Sanskrit Departments)





Celebration of Jayanti of Litterateurs, Literary Competitions on Hindi Diwas and Collaborative events by Hindi Department



'VISHWA HINDI DIWAS' CELEBRATED IN GGP GC

Ujjain: Language is an eternal traveller and recognizes its roots. Hindi is spreading across the world due to its scientific but simple nature. With India gaining supremacy in global economy, learning Hindi is becoming imperative to engage in world trade and commerce. Hindi is related with many languages and has the power to coin new words. Digital facilities of translation available on the tips of finger have expanded the horizon of Hindi language.

These were words of Dr Shashi Joshi, professor and

head, Hindi department, Madhav Science College, who was addressing a web talk organised by department of PG Studies and Research in Hindi and IQAC of Government Girls' Post-Graduate College (GGPGC) to celebrate the Vishwa Hindi Diwas on Monday.

Speaking on "Digital Yug mein Hindi Bhasha ka Vishwa Patal Par Badhta Mahatv", Dr Joshi remarked that in changing digital scenario Hindi has acquired a new face globally and has become visible on Facebook, Twitter, YouTube and other web-

sites. She gave links of some important websites, blogs and web series to explore literature and content of Hindi. She asked the students to use Hindi typing fonts on mobile instead of Roman language to respect and popularise Hindi.

The welcome address was given by Dr Sadhna Nirbhay, professor and head, Hindi department of GGP GC. Programme was conducted by Dr Prem Phagna, faculty, Hindi department. Vote of thanks was given by Dr Neeta Tapan, IQAC coordinator.

Drama by Sanskrit Department



Spring Poetry Festival by English Department

Contributors



Prateeksha
Panwar



Dr. Shashi
Joshi



Dr. Pooja
Upadhyay



Vrinda
Pawar



Dr. Pankhuri
Vaqt Joshi



Prakrati
Wahane



Shallee
Sharma



Zenab
Saify



Ayushi
Ahuja



Trishala
Pathak

Organizing Committee
English Department
GGPGC, Ujjain

Dr. Bharti Shrivastava
Dr. Seema Sharma
Dr. Niranjana Malani

Post Graduate Department of English
Govt. Girls' P G College, Ujjain

A Centre for Excellence, "A" Graded by NAAC in Two Cycles

Internal Quality Assurance Cell

In collaboration with

Tapan Chourey FOUNDATION



Celebrate

"Spring Poetry Festival"

"बसंत काव्य महोत्सव"

16th February 2021

At 2.30pm

An Ode to

Prof. Sarla David

(Prof. of English in GGPGC,
Ujjain from 1961 to 1993)



Convener



Head,
English Department
GGPGC, Ujjain

Patron



Principal
GGPGC
Ujjain

Coordinator



IQAC, GGPGC
Ujjain &
President, TCF

Spring Festival, 2021: GGPGC holds online poetry event

FP NEWS SERVICE
Ujjain

An online poetry event was held to mark Spring Festival-2021 by department of English and IQAC Government Girls' Post-Graduate College (GGPGC) in collaboration with Tapan Chourey Foundation with aid of English, Hindi and Sanskrit poetry. The students and alumni

of GGPGC recited classic poems of legendary poets or self-composed poems to pay an ode on the first death anniversary of the ex-professor of English Prof Sarla David, who served in the college for more than three decades from 1961 to 1993. Guest alumna Prateeksha Pawar recited a poem composed on Madam David. Alumni Vrinda Pawar

recited a self-composed poem on spring with audio visual depictions of nature and Dr Shashi Joshi of Madhav Science College and Dr Pankhuri Vaqt Joshi recited self-composed poems on Basant in Hindi. Dr Pooja Upadhyay, Maharishi Panini University recited and interpreted verses on spring from Ritusamhara in Sanskrit. The post-graduate students of English

from the college recited poems of Wordsworth, PB Shelley and Sarojini Naidu on the themes of spring and nature.

In his presidential address the officiating principal, convener of the festival and head, department of English, GGPGC Dr Hemant Gehlot said that we are celebrating the advent of spring on Basant Panchami in the three lan-

guages which are pregnant with poetry on spring in all its shades and are very close to the heart of sensitive souls. He remarked that spring finds a proud place in the lyrical compositions of literature whether it is in the English poetry of Wordsworth, or the Sanskrit epic of Kalidasa or the Hindi poetry of Nirala. This festival is a unique event in the sense

that it has not only attempted to bring forth the lyrical quality of the classic compositions to commemorate the memory of a former teacher but has also nurtured and displayed the talents of the students and alumni worldwide.

The contextual perspective was given by IQAC coordinator Dr Neeta Tapan. The programme was conducted by Dr Niranjana

Malani, faculty, English Department. Welcome address was given by Dr Seema Sharma and vote of thanks was extended by Dr Bharti Shrivastava professors of English department. The masters of poetry recital ceremony were Nitin David and Oorja Tapan of Tapan Chourey Foundation. Technical support was given by Vivek Dubey.

कन्या महाविद्यालय में स्व डॉ. सरला डेविड की स्मृति में काव्यपाठ का आयोजन हुआ

उज्जैन। जीजीपीजीसी में महाविद्यालय की पूर्व प्राध्यापक स्व. डॉ. सरला डेविड की स्मृति में आनलाईन काव्यपाठ अंग्रेजी विभाग, आईक्यूएसी व तपन चौरे फाउन्डेशन के संयुक्त तत्वावधान में बसंत उत्सव 2021 के अवसर पर अंग्रेजी, हिन्दी व संस्कृत की कविताओं का आयोजन किया गया। डॉ. सरला डेविड ने महाविद्यालय में 1961 से 1993 तक तीन दशकों तक कार्य किया।

अतिथि पूर्वछात्रा प्रतीक्षा पवार ने मैडम डेविड पर रची गई कविता से कार्यक्रम की शुरुआत की। पूर्व छात्रा वृन्दा पवार ने स्वरचित बसंत ऋतु पर आधारित कविता ऑडियो विजुअल

माध्यम से प्रकृति के दृश्यों के साथ प्रस्तुत की। डॉ. शशि जोशी प्राध्यापक माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन एवं डॉ. पंखुरी वक्त जोशी पूर्व छात्रा व निदेशक, जोशी अकेडमी ने स्वरचित हिन्दी की कविताएं सुनाई। महर्षि पाणीनी संस्कृत वि.वि की प्राध्यापक डॉ. पूजा उपाध्याय ने कालिदास के संस्कृत महाकाव्य ऋतु संहार में बसंत के पदों की व्याख्या की। एम.ए अंग्रेजी की छात्राओं कु. प्रकृति वाहने, शैली शर्मा, आयुषी आहुजा, जेनब सैफी व त्रिशला पाठक ने वर्डसवर्थ, पीबी शैले व ससेजनी नायडू की बसंत ऋतु व प्रकृति पर आधारित अंग्रेजी कविताओं का पाठ किया।

अध्यक्षीय उद्बोधन में संस्था प्रभारी प्राचार्य तथा कार्यक्रम संयोजक डॉ हेमन्त गेहलोत विभागाध्यक्ष अंग्रेजी विभाग ने कहा कि हम बसंत ऋतु के आगमन का उत्सव तीन भाषाओं में मना रहे हैं जो बसंत उत्सव की कविताओं से समृद्ध है।

आईक्यूएसी समन्वयक डॉ नीता तपन ने कार्यक्रम का संदर्भ प्रतिपादित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ निरंजना मलानी अतिथि विद्वान अंग्रेजी विभाग ने किया। स्वागत भाषण डॉ. सीमा शर्मा ने व आभार डॉ भारती श्रीवास्तव ने व्यक्त किया। काव्यपाठ सत्र का संचालन तपन चौरे फाउन्डेशन के नितिन डेविड व कु. ऊर्जा तपन ने किया। तकनीकी सहयोग विवेक दुबे ने प्रदान किया।

History Department – Transfer of Knowledge through Exhibition, Art Gallery
Workshop and Exhibition of Ancient Currencies and Weapons of Freedom Struggle





Workshop (Blended Mode) in Drawing Department



Rakhi, Karve, Diya, Toran etc. by Drawing Department





Collaborative National Nutrition Month Celebration by Home Science Department



Marathon race, symposium mark National Nutrition Month



Girls and boys present during a Marathon race

FP NEWS SERVICE
Ujjain

Marathon race, symposium, etc. were organized at different places under the ongoing 'National Nutrition Month'.

MARATHON RACE
The marathon race began from Mahashweta Nagar Sports Complex and while crossing Kothi Road and Tarantaal concluded at the beginning point. Women and child development department's joint-director NS Tomar, programme officer Gautham Adhikari, district youth and sports officer Rubika Diwan, district women empowerment officer Sabir Ahmed Siddiqui and women and child development department's assistant director Rajeev Gupta were present. About 300 girls and boys participated in the race. In boy's group Nilesh Waghele, Dhiruv Patel and Lakshya Sengar won first, second and third prize, respectively. Likewise, in girl's group Pooja Sharma, Ishika Narwariya and Minakshi Kumar won first three positions, respectively.

ALWAYS CHOOSE BALANCED DIET
A college level symposium on nutrition was jointly organised by district child and women development department and home science department at Government Girls Post-graduation College. Divisional coordinator of the nutrition International Brij Mohan Dubage said to choose balanced diet from the locally available eatables. Today 52% teenager girls and women are suffering from anemia whereas in children this percentage is even more 68.9 percent. It is necessary to have any four things among the seven eatables grains, pulses, milk, green vegetables and fruits, oil, meat, eggs in our daily food, he added. Principal Dr Ulka Yadav said that our food on festivals is special and it is according to the season. We should avoid junk food. Dr Nikhat Parveen said if nutritious diet is given to the patients they recover soon in mental diseases. Questions were also asked to the girls about nutrition and medals were given to the students who gave correct answers. District child development project officer Dr Reena Ardhavaryu said there are 40 nutrients and we should choose a judicious combination of these. Vote of thanks was given by convener and HOD of home science department Dr Rekha Sharma.



A guest addressing the symposium FP PHOTOS

IQAC

HUMAN LIBRARY SESSIONS





Spot Painting on Classical Ragas in Spring Festival and Anand Mahotsav



Instrumentation Workshops in collaboration with PG Tech, Indore



GGPGC students visit PG Tech Institute



The GGPGC students during their educational tour to a research institute in Indore

FP NEWS SERVICE
Ujjain

An educational tour was organised for students by the department of chemistry and pharma chemistry, Government Girls Post-Graduate College to PG Tech Research Institute, Indore.

The technical staff of PG Tech Research Institute provided a lab session on the working and usefulness of instruments like HPLC, UV spectrophotometer, freeze dryer, concentrator, muffle furnace etc. The convener of the tour and Head of the Chemistry Department Dr Anita Manchandia

said that this visit helped the students to learn about newer equipment, get a hands-on brief practical session and explore research avenues. Dharmesh Rathore, Dr Neha Tripathi, Afreen Ali, Surbhi Shukla, Kismat Tomar and Rambaran Singh coordinated this tour of 47 students.

Ujjain division wins state-level chess championship

Ujjain Division won the state-level chess championship in teaching and non-teaching staff sports of the higher education department. The team included Dr Chhaya Hardia, Dr Ranjana Sharma both from Government Girls' Post-Graduate College Ujjain, Neha Baghel from Dewas Girls' College and Dr Jyoti Yadav from Khachrod College. Ujjain team played its matches with Indore, Rewa, Jabalpur, Bhopal and Sagar divisions. In table tennis, Bhopal division was the winner. Bhopal division was overall champion in the tournament. The event was organised by Government TRS College Rewa. Total 8 divisional teams of Bhopal, Ujjain, Indore, Sagar, Gwalior, Jabalpur, Rewa and Chhindwara participated in the State-level chess, badminton and lawn tennis tournaments.



The winning team in the chess tourney receives a shield FP PHOTOS

**Sale of hand made products under Business
Incubation Centre “SYNERGY”**



SYNERGY

BUSINESS INCUBATION CENTRE

GOVT. GIRLS' PG COLLEGE UJJAIN

A CENTRE FOR EXCELLENCE

(ESTABLISHED IN 1958)

“A” GRADED BY NAAC FOR 2 CYCLES

INTERNAL QUALITY ASSURANCE CELL

On Site Training through Educational/Industrial Tours





5RC2+Q52, Sethi Nagar, Ujjain, Madhya Pradesh 456010, India

Ujjain
Madhya Pradesh
India

24°C
75°F

2021-12-09(Thu) 03:12(pm)

A map showing the location of the fair in Ujjain, Madhya Pradesh, India. The map includes labels for 'RAVINDRA NAGAR', 'Vikram University', and 'Sethi Nagar'. The map is overlaid on a weather widget showing the current temperature and time.



Debate, essay contests organised under vigilance awareness week

FP NEWS SERVICE
Ujan

"Honesty makes us vigilant also. It should be in our lifestyle in day to day work," Northern Coal Fields Ltd Singroli assistant personnel manager Vivek Gauram said. He was addressing during debate and essay competitions on the subject 'Honesty alone is the key to success', organised under the joint aegis of Hindi department and IQAC of Government Girls Post-graduate College (GGPGC) to mark vigilance awareness week of the company. In her presidential address principal Dr Ulka Yadav told that every work that we do in proper way is honesty it includes all good properties. Stu-

dents expressed in their views that honesty starts from home. honest person also get a little punishment, this path of honesty is difficult but necessary.

In essay competition Saloni Saragura stood first. Dihaa Choube second and third prize went to Kiran Malviya. In debate competition Saloni Saragura stood first. Despica Amaliyar second and Kotika Rashinkar was third. In both competitions consolation prizes were also given by the company. Judges of the competition were Dr. Bharti Jain, Dr. Virendra Singh and Dr. Sandhya Dawere. Dr. Sadhna Nirbhay welcomed the guests. Programme was conducted by Dr. Archana Mehra and vote of thanks was proposed by Dr. Anand Sindal.



A girl participant putting her views during debate contest.



GGPGC wins district-level women kho-kho tourney

GGPGC team won the district level women kho-kho tournament of organised by the higher education department. The tournament was inaugurated by principal Dr. Ulka Yadav. In the tournament 4 college teams participated. In the first match played between GGPGC and Madhav Science College, GGPGC emerged as winner. In the second match played between Bhartiya College and Kalidas Girls College, the former team became winner. In the final match between GGPGC and Bhartiya College, the former team overpowered the later.

Members of winning Kho-Kho team pose for group photograph with GGPGC staff

आनंद महोत्सव में प्रस्तुतियों ने मोहा



आनंद महोत्सव में प्रस्तुति देते हुए छात्राएं।

उज्जैन। नईदुनिया प्रतिनिधि

शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आनंद महोत्सव हुआ। कार्यक्रम में छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर उपस्थितजनों को मोह लिया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि कबीर भजन गायक प्रहलादसिंह टिपागिया, अपर आयुक्त नगर निगम विशालसिंह चौहान, महिला सशक्तिकरण कार्यकर्ता अमिता जैन उपस्थित थे। अध्यक्षीय उद्बोधन प्रभारी प्राचार्य डॉ. उल्का यादव ने दिया।



महोत्सव में बनाए चित्र प्रदर्शित करती छात्राएं।

Semi-classical adds flavour to folk and classical music

FP NEWS SERVICE (PIC-5)
Ujjain

Semi-classical music is a fusion of light and classical music and keeps the spirit of traditional music styles alive among the masses and keeps the folk music alive in classical music. This symbiotic relationship ultimately promotes Indian music in different forms.

These were the words Dr Neena Shrivastava, a professor of music, Sarojini Naidu Government Girls Post-Graduate Autonomous College, Bhopal. He was addressing a national webinar on 'UpShas-



Dr Neena Shrivastava performs during national webinar on semi-classical music FP PHOTO

triyana Sangeet ki Vibhinn Gayan Shailiyan' organised by music (vocal) department and IQAC of Government Girls Post-Graduate

College. She gave melodious presentations on Chaiti, Hori, Dhrupad, Dadra, Thumri and Jhoola. In his presidential ad-

dress principal Dr HL Anjwal said that this webinar not only provide technical benefits to the students and teachers of music departments but it was also a feast for the ears of one and all. IQAC coordinator Dr Neeta Tapan described the academic and assimilative advantages of such events. Convener and head of music department Dr Archana Parmar gave the thematic background, welcome address and vote of thanks. Dr Priyanka Vaidya conducted the programme and technical support was given by Dharmesh Rathore.

More Ujjain News on Pg 5

SHORT PLAY ROOTS FOR VACCINATION

Short Play on 'COVID-19 Vaccine Dwitya Dose Hai Zaroori' was enacted by seven NSS volunteers of both the units of Government Girls PG College under the aegis of



Internal Quality Assurance Cell to spread the importance of vaccination. The event was witnessed by students, teaching and non-teaching staff in a large number. On this occasion principal Dr HL Anjwal persuaded all the onlookers to carry the message of vaccination forward in the society in the current resurgence of COVID. The programme was conducted by NSS officer Dr Hemlata Chauhan and vote of thanks was proposed by NSS officer Dr Chhaya Harda.

आण्विक जैविकी के अद्यतन सिद्धांतों का प्रायोगिक प्रशिक्षण आपके कौशल को बढ़ाएगा : डॉ.श्रीवास्तव

जीडीसी में बायोटेक्नालॉजी विभाग द्वारा तीन दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन

उज्जैन। आण्विक जैविकी के अद्यतन सिद्धांतों का प्रायोगिक प्रशिक्षण आपके कौशल को बढ़ाएगा। प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ बायोस्फीयर संवर्धन के लिए कार्य करते हैं।

उक्त उद्गार डॉ.सुधा श्रीवास्तव प्राचार्य शासकीय कालिदास कन्या अग्रणी महाविद्यालय उज्जैन ने शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बायोटेक्नालॉजी विभाग द्वारा आयोजित तीन दिवसीय नेशनल वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन रिसेंट टेन्डेंस इन मालीक्यूलर बायोलॉजी के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए।



कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रशिक्षक डॉ. संदीप नागर ने कहा कि विद्यार्थियों को उन्नत उपकरणों पर प्रत्यक्ष

प्रायोगिक कार्य करने का अवसर मिल रहा है। यह आपके रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाएगा। अध्यक्षीय

उद्बोधन में प्राचार्य डॉ.उल्का यादव ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यशाला यहां आए सभी महाविद्यालय के विद्यार्थियों के

लिए व डेलिगेट्स के लिए एक विरला अवसर है। इसका पूर्ण लाभ लें।

आगन्तुक अतिथियों ने दीप प्रज्वलन व देवी सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों को किट व मेमेन्टो प्रदान किए गए। अतिथि परिचय, स्वागत भाषण व कार्यशाला व प्रशिक्षण की थीम संयोजक डॉ. लीना लखानी ने प्रस्तुत की। प्रशिक्षण में विभिन्न महाविद्यालयों के करीब 100 विद्यार्थी व प्राध्यापक सम्मिलित हो रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन कु.नयन सिंदल ने किया व आभार डॉ. विनोद कुमार गुप्ता ने व्यक्त किया।

Principles learnt through experiment always remains in memory: Dr Shrivastava

FP NEWS SERVICE
Ujjain

Principles learnt through experiment always remain in memory. Theory evolves through experiment and experiments in turn through theory. Experiments must be qualitative and quantitative both and this is seen practical in this innovative workshop.

These were the views expressed by chief guest Dr BD Shrivastava, former professor of physics, School of Studies in Physics, Vikram University in the valedictory session of the two-day national workshop

on Innovative experiments in Physics organised by Physics Department and IQAC of the Government Girls Post-Graduate College and sponsored by Indian Association of Physics Teachers (IAPT) and college Janbhagidari Samiti.

Mentor of the workshop Dr YK Vijay, director, Centre for Innovation in Science Teaching IIS University, Jaipur, expressed that whatever you will grasp here will be with you. Such deeds give peace to us. Special guest of the program and resource person for second day Dr PK Dubey, former professor and head



Participating girls of GGPGC during the valedictory session of a two-day workshop on physics FP PHOTO

Gujarati Science College Council-9 secretary said Indore and IAPT Regional that these innovative ex-

periments increase the interest of students in physics. He demonstrated innovative experiments developed by him.

College principal and chairperson of the programme Dr Ulka Yadav said that this workshop was interesting and knowledgeable. She also accepted the suggestion of establishing an innovation hub in the college. Convener of the programme Dr Vinod Kumar Gupta presented the report of the workshop. He narrated that nearly 10 innovative experiments were provided to students by Dr Vijay and 5 experiments by

Dr PK Dubey. They demonstrated and get performed these experiments by participants.

In the feedback session participating teachers and students told that in the workshop they grasped physics in a simple way. Dr Sunil Sharma, Garima Rawal, Noshin Fatima, Poorva Sharma, Sharan Kaur and Nidhi Pant expressed their views in the feedback session. Guests distributed certificates to the participants. Programme was conducted by Dr Nidhibala Jain and vote of thanks was proposed by Dr Gupta.

NATIONAL SCIENCE DAY CELEBRATED IN GGPGC

National Science day was celebrated in Government Girls' Post-Graduate College. On this occasion two programmes were organised.

In the first programme organised by chemistry, pharmacchemistry departments and IQAC, seminar, short film display and quiz competitions were held. In the seminar students Vratika Gunjal and Nikita Anjana presented their views on Science Day. Dr Vinod Kumar Gupta and Dharmesh Rathore spoke about the importance of Science Day and Raman Effect, respectively. Two short films, one on science in our culture and the other contribution of Indian women in science were displayed. An oral quiz named fact and fiction was conducted. Principal Dr HL Anijwal in his presidential address told that our life depends on science. Introduction of zero is a great contribution of India to the world. Dr Anita Manchandia proposed vote of thanks.

In the second programme organised by mathematics, physics, computer science, statistics departments and IQAC,



GGPGC students participate in the National Science Day programme FP PHOTOS

an exhibition of models, charts and poster was arranged by the students. Inaugurating the exhibition chief guest Dr Swati Dubey told that we can learn scientific approach from the life and work of Raman and other great scientists of India. Principal Dr Anijwal also spoke. HoD mathematics Nirmala Gupta told that all science branches are interconnected. Dr Manglesh Thakre proposed vote of thanks.

Citizens' cooperation sought for Swachh Survekshan 2021

11/12/20
FP NEWS SERVICE
Jaora

Following government instructions various activities are being organised everyday by the Municipality at field level under the Swachh Survekshan 2021 mission number one - Madhya Pradesh.

Surrounding area of Pilia Khal and the condition of solid waste affecting the major drains was inspected by chief municipal officer Dr Keshav Singh Sagar and sanitary inspector Uttam Kumar Narra.

Citizens were asked not to throw waste in river. After checking cleanliness, citizens were urged to cooperate and contribute in making city number one in Swachh Survekshan 2021.

People were also urged to wear mask and maintain social distance to avoid coronavirus infection.

GGPGC's annual magazine 'Prerna' released

Guests releasing GGPGC's annual magazine FP PHOTO

FP NEWS SERVICE
Ujjain

Government Girls Post-Graduate College (GGPGC)'s annual magazine for academic session 2019-2020—Prerna—was released during a programme. Former teacher of the college Dr Uma Vajpayee was the chief guest.

Addressing the programme, Dr Vajpayee said that annual magazine is the mouthpiece of the institution as it develops creativity of students as well as describes important achievements of the college. This college is an A-grade college and has maintained its tradition of magazine publishing.

Principal Dr Ulka Yadav said "we have published it even in odd circumstances of Corona pandemic. In this magazine, the students have demonstrated their excellence through compositions." Magazine editor Dr Sadhana Nirbhay said that the issue was published as Gandhi special issue to commemorate 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. This will help in spreading the thoughts of Mahatma Gandhi among students.

At the beginning of the programme, guests lit a lamp in front of Goddess Saraswati's idol and garlanded it. On this occasion, members of the editorial board, including Dr Hemant Gehlot, Dr Anita Mamanchandia, Dr DC Khandelwal, Dr Nirmla Gupta and Dr Archana Mehra were present. Dr Vinod Kumar Gupta conducted the programme.

E-library inaugurated at GGPGC

Ujjain: On the occasion of Library Day on Thursday, an updated e-library was launched at Government Girls Post-graduate College (GGPGC) library by principal Dr HL Anijwal, senior professor Dr Anita Manchandia and librarians Dr Sunita Chouhan.

The principal said that e-library is need of the hour and it is quite useful for students in the present circumstances.

IQAC coordinator Dr Neeta Tapan and RUSA coordinator Dr VK Gupta were also present.

Demarcation machine

FP NEWS SERVICE
Ujjain

Several demarcation cases have been stuck in the district due to Covid-19 pandemic. As the rainy season is on, the collector issued an order to demarcate through machines. The district is currently lagging behind in resolving revenue matters due to Covid-19 duty.

Folk art expo organised in GGPGC

FP NEWS SERVICE
Ujjain

Arts week, organised under the joint aegis of IQAC and drawing department of Government Girls' Post-graduate College (GGPGC), concluded on Monday with an exhibition based on Indian culture and folk arts.

The exhibition was inaugurated by principal Dr HL Anijwal. He said that 200 girls enthusiastically participated in various competitions of arts week like Sanja, Deep Sajja, Alpana, Patra Sajja (utensil decoration) etc. It showed their love towards arts, he said. He also distributed certificates to participating students.

The competition was conducted by Dr Ranjana Wankhede, head of drawing department. The exhibition was conducted by Dolly Rochlani. Dr Anita Manchandia, IQAC coordinator Dr Neeta Tapan, Dr



Handicrafts prepared by GGPGC students during arts week FP PHOTO

Sadhna Nirbhay, Dr Archana Mehra, Dr Leena Lakhani, Dr Nirmala Gupta, Dr Nancy Chauhan, Dr Nikhat Parveen and Dr Rashmi Bhargava were present. Dr Vikrant Shah proposed vote of thanks.

दिव्यत आ रही है।

इलेक्ट्रॉनिक्स के मूलभूत उपकरणों का उपयोग

तस्वीर से भूत निकाली, बोले- जादू नहीं, मर्करी क्लोराइड है

जीडीसी में इनोवेशन कार्यक्रम विज्ञान का जादू, जादू का विज्ञान

भारत संघदाता | 333

कोई भी जादू बिना विज्ञान के नहीं होता। हर चमत्कार या जादू के पीछे विज्ञान के राज छिपे होते हैं। सोमवार को एक्सपर्ट ने कुछ ऐसे ही तरीकों का प्रेजेंटेशन करके छात्रों को जादू के पीछे छिपे विज्ञान के रहस्य को बताया।

स्थित शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय (जीडीसी) में सोमवार को नवाचारी कार्यक्रम



इनोवेशन कार्यक्रम पर संबोधित करते एक्सपर्ट एवं मंचासीन अन्वय अतिथिगण।

के अंतर्गत कॉलेज के भौतिकी व कंप्यूटर विभाग द्वारा विज्ञान का जादू, जादू का विज्ञान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कॉलेज की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष शील लश्करी ने शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथि

प्रो. एनके गर्ग थे। अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. उल्का यादव ने की। कार्यक्रम में चिल्ड्रेन्स साइंस सेंटर रतलाम के विशेषज्ञों के रूप में आए गजेंद्र सिंह राठौर, अनिल मिश्रा और गिरीश लहवासिया उपस्थित थे। कार्यक्रम

की रूपरेखा संयोजक डॉ. विनोद कुमार गुप्ता ने प्रस्तुत की। इसके बाद एक्सपर्ट ने खाली डिब्बे से हार-फूल निकालना, तस्वीर से भूत निकालना, भूत उतारना, नारियल से आग निकालना, खाली गिलास से पानी निकालना सहित अन्य जादू के पीछे छिपे विज्ञान के रहस्य को वैज्ञानिक कारणों के साथ समझाया। संचालन डॉ. वीके गुप्ता ने किया। आभार डॉ. रत्नेश शर्मा ने माना।

नींबू लाल होने और आग लगने के कारण बताए

कार्यक्रम में एक छात्रा को भूत उतारने पर नींबू लाल हो गया।

नारियल का पानी छिड़कते ही उसमें आग लग गई। हवन कुंड में घी डालते ही अग्नि प्रज्वलित हो उठी और तस्वीर से भूत निकलने लगी। एक्सपर्ट गजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि नींबू में फेरिक क्लोराइड इंजेक्ट कर चाकू पर सोडियम थायोसाइनेट लगाने से काटने पर वह लाल हो जाता है। हवन कुंड में पोटेशियम परमेगनेट पर ग्लिसरीन डाल कर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इसी तरह सोडियम के टुकड़ों को नारियल की जटा में रख कर पानी डाला जाता है। तस्वीर की एल्यूमिनियम फ्रेम पर मर्करी क्लोराइड लगा कर भूत निकाली जाती है।

विशेषज्ञ बोले- साल्ट, शुगर व स्ट्रेस इन तीन एस से बचें, रोज पैदल चलें

जीडीसी में दो दिनी विज्ञान दिवस समारोह, आज पॉवर पाइंट प्रजेंटेशन

भास्कर संवाददाता | उज्जैन

हमें साल्ट, शुगर और स्ट्रेस इन तीन एस से बचना चाहिए। खाने में फल के साथ अंकुरित अनाज लें। पैदल चलें और कसरत जरूर करें। यह बात देवी अहिल्या विवि के लाइफ साइंस विभाग के चेयरमैन डॉ. आनंद ने मंगलवार को शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय (जीडीसी) में कही। वे कॉलेज की विज्ञान समिति की अगुवाई में साइंस फॉर पीस एंड डेवलपमेंट (शांति और विकास के लिए विज्ञान) विषय पर आयोजित दो दिनी विज्ञान दिवस समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने हाइपर टेंशन, हृदय रोग से बचाव के उपाय भी बताए।

एक से ज्यादा विषय के जानकार बनें, यही वक्त की जरूरत

डॉ. चंद्रशेखर वेंकटरमन व अन्य वैज्ञानिकों के जीवन से विद्यार्थियों को प्रेरणा लेना चाहिए। कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च (सीएसआर) इंदौर के निदेशक डॉ. वी गणेशन ने कहा-रिसर्च के लिए एक विषय पर केंद्रित न होकर एकाधिक विषयों का जानकार : इंटरडिसिप्लनरी होना चाहिए। यही वक्त की जरूरत है। डॉ. रमन के बाद आज तक किसी भारतीय वैज्ञानिक को नोबल पुरस्कार नहीं मिला। अध्यक्षता प्राचार्य डॉ. उल्का यादव ने की। अतिथियों ने डॉ. लीना लखानी, शीबा खान

की बायोटेक्नोलॉजी विषय पर लिखी पुस्तक मेन्युअल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन बायोटेक्नोलॉजी का विमोचन किया। उन्होंने विज्ञान प्रदर्शनी का उदघाटन भी किया। इस दौरान डॉ. रश्मि भार्गव, डॉ. प्रतिभा अखंड, डॉ. वीके गुप्ता मौजूद थे।

आज पुरस्कार वितरण के साथ होगा समापन


साइंस दिवस समारोह के दूसरे दिन बुधवार को पावर पाइंट प्रजेंटेशन प्रतियोगिताएं रखी जाएंगी। इसके बाद भौतिकी व कंप्यूटर विभाग द्वारा तैयार करवाए गए इनोवेटिव प्रोजेक्ट का प्रदर्शन होगा। पुरस्कार वितरण के बाद समापन होगा।

Seminar on science for peace, development held to mark 'Science Day' at GDC

FP NEWS SERVICE
Ujjain

A celebration function was organised by the science committee of the Government Girls Post graduate College (GDC) on Tuesday to mark the occasion of Science Day.

Centre Director of CSK Indore Dr V Ganesan was chief guest and keynote speaker. He said "instead of depending on one subject, inter-disciplinary subjects are the need of hour and students should follow it." He emphasised on many practicals in different fields of science. He advised students to exercise regularly and maintain at least one hobby. After Dr CV Raman though no Indian scientist got the



Guests releasing a book during the Science Day programme at GDC. FP PHOTO

Nobel prize. Science has taken a big leap in our country," he added.

Professor and chairman of the department of life sciences at Devi Ahilya Vishwa Vidyalaya, Indore, Dr Anand Kar, was the

special guest speaker. His lecture focused on the science of heart problems with special reference to hypertension, in connection with theme of the seminar "Science for peace and development".

He said without good health, peace cannot be achieved and without peace, development is not possible. He presented the subject in detail with causes, symptoms and treatments. He suggested avoid-

ing the three "S" stress, salt and sugar and emphasised on regular exercise and eating fruits.

Release of a book on biotechnology written by Dr Leena Lakhani and Sheeba Khan entitled as "Manual of Experiments in Biotechnology" was also released during the function. Inauguration of a science exhibition was also done by the guest. The function was inaugurated by illuminating candles followed by Saraswati Vandna. Introduction of guests was given by Dr Lakhani. The programme was conducted by Dr Rashmi Bhargava. Programme details were given by Dr Pratibha Akhand and vote of thanks was given by Dr Lakhani.

Innovation is the backbone of Atmanirbhar Bharat

Professor who holds 8 patents addresses webinar organised by GGPGC
FP NEWS SERVICE
Ujan

Transforming of knowledge into products and processes to float into the market can give pace to Atmanirbhar Bharat. Abhyaan and Vocal for Local Initiative. The students can play a major role in thinking out of the box and using the laws and principles of science and management to resolve daily life problems. Inno-

vation is doing a thing in a new way and it requires a mindset which is ever questioning, in constant learning mode, can foresee alternate picture of future, is creative, dares to challenge the status quo and uses imagination before experience.

These were the words of Dr. Gavendra Dixit, professor and head of mechanical engineering department, Maulana Azad National Institute of Technology (MANIT), Bhopal. He was speaking as an invited distinguished speaker in the national webinar on "Innovations in Daily Life under the Intellectual Property Ecosystem" organised by the Internal Quality Assurance Cell

(IQAC) of Government Girls Post-Graduate College (GGPGC) under the Business Incubation Centre SYNERGY of the college.

Dr. Dixit who holds eight patents for his innovative products displayed videos of automatic washing machine and cost effective ventilator developed under his guidance in his institute during COVID crisis.

He also elaborated how existing wash basins were converted into foot operated wash basins at a cost of Rs. 120 only. He showed several examples of small innovations in daily lives like drip catching coffee mug, toothpaste squeezer, card board cum table school bag, anti-tangle ear-



DR. GAVENDRA DIXIT

phone chain, pedalling washing machine, edible tea cup, scissors for kitchen and cost-effective agriculture equipment.

In another webinar on "Roadmap to Patent Creation under the IPR Regime", Dr. Savita Dixit, professor and head of chemistry department, MANIT Bhopal said that the products do not have to



DR. SAVITA DIXIT

be very big or sophisticated to get patented.

She said that simple and small innovations can be patented provided they are novel, unique and have utility for the society. She holds five patents for her products and processes and elaborated the processes of three R's: reduce, recycle and reuse for environmental protection and

resource management. She described the process of converting waste into best through addressing the physical and chemical properties of different substances. She also explained the process of obtaining time bound patents for one's innovations.

Principal Dr. Anita Manchandia, in her presidential address, said that the students are full of potential and establishing innovation hubs, business incubation centres, start-ups in the higher education institutions can help in achieving micro objectives like ease of living life, taking lab to land, self-employment, entrepreneurship development to attainment of the macro goals of economic growth and national development with self-reliance.

The thematic introduction was given by IQAC coordinator and convener of the webinars Dr. Neeta Tapan. The programme was conducted by Dr. Nancy Chauhan, head of economics department. Welcome address and guest introduction were given by Dr. Samina Qureshi, professor of chemistry and IQAC member. Vote of thanks was extended by Dr. GD Agrawal, professor and head of pharmaceutical chemistry and coordinator of Business Incubation Cell SYNERGY of the college. Technical support was given by Dharmesh Rathore and Vivek Dubey.

News in Brief

GGPGC organises 'Earn and Learn'
Drawing and painting and IQAC departments of Government Girls Post-Graduate College, students made and sold Karve (small designed kalash) and designed henna under the 'Earn and Learn' programme. The event was inaugurated by the principal Dr. HL Anijwal. Dr. Ranjana Wankhede, head of department, conducted the programme. Dr. Vikrant Shah and Dr. Dolly Rochlani guided the students.

ऑनलाइन दीवाली का विक्टोरियन महोत्सव का आयोजन संपन्न

उज्जैन। कन्या महाविद्यालय ने विक्टोरिया स्टेट गवर्नमेंट के साथ इंटरनेशनल कल्चरल एक्सचेंज के तहत सेलिब्रेट इंडिया आजादी का अमृत महोत्सव नाम से दीवाली मेलेबर्न 2021 का ऑनलाइन विक्टोरियन फेस्टिवल आयोजित किया। इस कार्यक्रम में कन्या महाविद्यालय को छात्राओं द्वारा मालवा के नृत्य एवं संगीत को ऑनलाइन प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का आयोजन शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन के आईक्यूएसी एवं संगीत एवं नृत्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। संगीत निर्देशन डॉ.

अर्चना परमार एचओडी म्यूजिक एंड डांस ने दिया। नृत्य निर्देशन डॉ. प्रियंका वैद्य ने दिया। कार्यक्रम में डॉ. रूपल जैन के साथ डॉ. अर्चना परमार ने आवाज दी। सहयोग सूत्रधार सुश्री मंजू बाँठिया कॉलेज की पूर्व छात्रा थीं। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. एच.एल. अनिजवाल थे। राजेन्द्र कर्हाड़कर द्वारा सहायक का कार्य किया गया। कार्यक्रम का 30 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे सेलिब्रेट इंडिया, ओआरजी.एयू और फेसबुक पर सीधा प्रसारण किया गया। उपर्युक्त जानकारो आयक्यूएसी संयोजक डॉ. नीता तपन ने प्रदान की।



Ten “S” Focal Schemes of IQAC Synergistic Structure with SDGs

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL	FOCAL SCHEME	INDICATORS
 1 No Poverty	 Swavlamban Sangini	Skill Development & Self Reliance Human Face & Society Connect
 2 Zero Hunger	 Sangini	Human Face & Society Connect
 3 Good Health and Well Being	 Sanjeevani	Wellness and Holistic Development
 4 Quality Education	 Satark Samadhan Sangojan	Critical & Scientific Thinking Academic Excellence Experiential Learning
 5 Gender Equality	 Shakti Swavlamban	Gender Equality & Women Empowerment Skill Development & Self Reliance
 6 Clean Water and Sanitation	 Srishti	Nature and Sustainable Environment
 7 Affordable and Clean Energy	 Srishti	Nature and Sustainable Environment
 8 Decent Work and Economic Growth	 Swavlamban	Skill Development & Self Reliance
 10 Reduced Inequalities	 Sangini Sanskar	Human Face & Society Connect Discrimination Free Strong Nation
 11 Sustainable Cities and Communities	 Srishti	Nature and Sustainable Environment
 12 Responsible Consumption and Production	 Swavlamban Srishti	Nature and Sustainable Environment Skill Development & Self Reliance
 13 Climate Action	 Srishti	Nature and Sustainable Environment
 15 Life on Land	 Srishti	Nature and Sustainable Environment
 16 Peace Justice and Strong Institutions	 Sanskar	Discrimination Free Strong Nation
 17 Partnerships for the Goals	 Samvad	Dialogue for Mentoring Leadership Potential & Collaborations